

# Zec

## Chapter 4

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
מִשְׁנֵתוֹ : יְעוֹר אֲשֶׁר- כְּאִישׁ וַיַּעֲרִינִי בִּי הַדְּבָר הַמְּלַאֲךְ וַיֵּשֶׁב  
अपनी-नींद-से। जागा-जाता-है जो- जैसे-पुरुष और-जगाया-मुझे मुझसे बोलने-वाला दूत और-लौटा  
H8142 H5782 H0376 H5782 H1696 H4397 H7725

तब जो दूत मुझसे बातें कर रहा था, मेरे पास आया और उसने मुझे जगाया। मैं नींद से जागे व्यक्ति की तरह लग रहा था।

2  
מִנְזֵרֶת וְהִנֵּה וְרָאִיתִי (וַיֹּאמֶר) וַיֹּאמֶר [ וַיֹּאמֶר ] רָאָה אֶתְּךָ מָה אֵלַי וַיֹּאמֶר  
दीवट और-देखो मैंने-देखा और-मैंने-कहा — देखता-है। तू क्या मुझे और-उसने-कहा  
H4501 H2009 H7200 H0559 H0559 H7200 H4100 H0413 H0559

וְשָׁבָה וְשָׁבָה עָלָיָהּ נִרְתְּוָהּ וְשָׁבָה וְשָׁבָה עַל- וְנָלְתָה כָּלָהּ וְהָב  
और-सात सात उस-पर उसके-दीपक और-सात उसके-सिर के-ऊपर- और-उसका-कटोरा पूरी-की-पूरी सोने-की  
H7651 H7651 H7651 H1543 H3605 H2091

מוֹצְאוֹת : עַל- אֲשֶׁר לְנִרְתּוֹת מוֹצְאוֹת  
उसके-सिर। के-ऊपर- जो के-लिए-दीपकों नालियां  
H4166

तब दूत ने पूछा, “तुम क्या देखते हो?” मैंने कहा, “मैं एक ठोस सोने का दीवाधार देखता हूँ। उस दीवाधार पर सात दीप हैं और दीवाधार के ऊपरी सिरे पर एक प्याला है। प्याले में से सात नल निकल रहे हैं। हर एक नल हर एक दीप तक जा रहा है। वे नल तेल को हर एक दीप के प्याले तक लाते हैं।

3  
וַיִּשְׁנִים וַיִּתִּים עָלָיָהּ אֶחָד מִיַּמִּין הַהֵלָה וְאֶחָד עַל- שְׁמֹאלָהּ  
और-दो और-के-पेड़ उस-पर एक कटोरे-के से-दाहिने एक उस-पर के-ऊपर- और-बाई।  
H8147 H2132 H0259 H3225 H1543 H0259 H8040

और दो जैश्चन के पेड़, एक दायी और दूसरा बायीं ओर प्याले के सहारे हैं।”

4  
וַיֵּשֶׁן וַיֹּאמֶר אֶל- הַמְּלַאֲךְ הַדְּבָר בִּי לֵאמֹר מָה אֵלַי אֲדַנִּי  
और-मैंने-उत्तर-दिया और-मैंने-कहा और-मैंने-कहा के-पास- दूत बोलने-वाले मुझसे मुझसे मुझसे  
H0559 H0413 H0413 H4397 H1696 H0559 H0113 H0428 H4100 H0559

और तब मैंने, उस दूत से जो मुझसे बातें कर रहा था, पूछा, “महोदय, इन सब का अर्थ क्या है?”

5  
וַיֵּשֶׁן וַיֹּאמֶר אֶל- הַמְּלַאֲךְ הַדְּבָר בִּי לֵאמֹר מָה אֵלַי אֲדַנִּי  
और-उत्तर-दिया और-मैंने-कहा और-मैंने-कहा के-पास- मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे  
H4397 H1696 H0559 H0413 H3808 H3045 H4100 H1992 H0428

וַיֹּאמֶר לֹא אֲדַנִּי :  
और-मैंने-कहा नहीं मेरे-प्रभु।  
H0559 H3808 H0113

मुझसे बातें करने वाले दूत ने कहा, “क्या तुम नहीं जानते कि ये सब चीजें क्या हैं” मैंने कहा, “नहीं महोदय।”

6  
וַיֵּשֶׁן וַיֹּאמֶר אֶל- זְרַבְבָּאֵל וַיֹּאמֶר לֵאמֹר אֵלַי לֹא  
और-उत्तर-दिया और-बोला और-बोला मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे  
H0559 H0413 H0559 H2088 H1697 H3068 H0413 H2216 H0559 H3808

בְּחִילִי וְלֹא בְּכַחְּ כִּי אִם- בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת :  
और-नहीं और-नहीं शक्ति-से और-नहीं सेना-से सेना-से सेना-से सेना-से सेना-से सेना-से  
H2428 H3808 H3068 H0559 H7307 H0559 H3068

तब उसने मुझसे कहा, “यह सन्देश यहोवा की ओर से जरुब्बाबेल को है: ‘तुम्हारी शक्ति और प्रभुत्ता से सहायता नहीं मिलेगी। वरन, तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी।’ सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा।”



तब दूत ने मुझ से कहा, “क्या तुम नहीं जानते कि इन चीजों का तात्पर्य क्या है?” मैंने कहा, “नहीं महोदय।”

הָאָרֶץ:	כָּל-	אֲרוֹן	עַל-	הָעֵמֻדִים	הַיֵּצֵהָר	בְּנֵי-	שְׁנֵי	אֵלֶּה	וַיֹּאמֶר	14
पृथ्वी-के।	सब-	प्रभु	के-पास-	खड़े-हुए	तेल-के।	पुत्र-	दो	ये	और-उसने-कहा	
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0113</a>		<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H3323</a>		<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H0559</a>	

अतः उसने कहा, “वे उन दो व्यक्तियों के प्रतीक हैं, जो सारे संसार में यहोवा की सेवा के लिये चुने गए थे।”